

दिनांक 12 मार्च, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन द्वारा भैंस के मांस का आयात

2562. डॉ. उदित राज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चीन ने वियतनाम के माध्यम से अपनी पूर्व खरीद की समीक्षा करते हुए भारत से प्रत्यक्ष रूप से भैंस के मांस के आयात का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या चीन के अधिकारियों ने भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप भैंस के मांस का प्रसंस्करण करने वाले 18 पशु वध गृहों का निरीक्षण किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) और (ख): चीन ने मई, 2013 में भारत से बोविन मांस के आयात के लिए पशु चिकित्सा नयाचार (वेटनेरी प्रोटोकॉल) पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, यह नयाचार अब तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। चीन के प्राधिकारियों ने भारत से बोविन मांस के आयात पर विचार करने के लिए ओआईई (आफिस इंटरनेशनल डेस ऐपीजूटीस) दिशानिर्देशों के अनुसार एफएमडी (खुर एवं मुखरोग) मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ): जी नहीं। भारत के एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम का सत्यापन करने के लिए चीन के एक्यूएसआईक्यू (गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध प्रशासन) निरीक्षण टीम ने 12-22 अक्टूबर, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। चीन के विशेषज्ञ दल ने मुक्तेश्वर में एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, पशु संगरोध केन्द्र, नई दिल्ली का दौरा किया और बंगलुरु में एफएमडी वेक्सीन उत्पादन इकाई एवं प्रयोगशाला तथा हैदराबाद और पंजाब में कुछ समेकित प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण के अलावा पंजाब और तेलंगाणा के पशुपालन - विभाग के साथ विचार-विमर्श आयोजित किए।
